

रमाणित किया जाता है कि इस मापी पुस्तक  
में मशीन के द्वारा अंकित कुल 100 एक सौ।  
पने है यह मापी पुस्तक श्री...अल्लाहुअल्लाह  
सहायक अभिभान्ता ग्रामीण कार्य विभाग  
कार्य अवर प्राप्तिकल.....३१८५/८ को निर्णय  
किया जाता है।

*लाल बहादुर*  
कार्यपालक अभियन्ता  
ग्रामीण कार्य विभाग  
कार्य प्रभान्ति, मध्यबन्दी  
*लाल बहादुर*

Sch. XLV—Form No. 134

DIVISION

SUB-DIVISION

## Measurement Book

No. 2714

Name of Officer \_\_\_\_\_

Date of first entry \_\_\_\_\_

Date of last entry \_\_\_\_\_

1<sup>st</sup> on A/C bill

Name of work—

Situation of work—

Agency by which work is executed—

Date of measurement—

No. and date of agreement.

(These four lines should be repeated at the commencement of the measurements relating to each work.)

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Name of work—	Construction of road				
8 C.D work from Bhagwantra					
Panchayat Road Ram Narayan house					
to Bhagwanpur Muslim Hola					

Name of Agency— Sri Ajay K. Singh, Tajpur,
Sheokar - 843329

Agreement No. — 80810 / 2021-22
---------------------------------

Date of commencement — 05.01.2022
-----------------------------------

Date of completion — 04.01.2023
---------------------------------

(Record of measurement) dt 06.06.23

1. Setting out pillars . . . of ETI.

$$01 \times 06 = 06 \text{ nos.}$$

2. Clearing & Grubbing . . . of ETI.

$$06 \times 30.0 \times 3.50 = 630.0 \text{ m}^2$$

$$04 \times 30 \times 3.50 = 420.0 \text{ m}^2$$

$$05 \times 30 \times 3.50 = 525.0 \text{ m}^2$$

$$07 \times 30 \times 3.50 = 735.0 \text{ m}^2$$

$$03 \times 30 \times 3.50 = 315.0 \text{ m}^2$$

$$05 \times 30 \times 3.50 = 525.0 \text{ m}^2$$

$$3150.0 \text{ m}^2$$

$$\text{or } 0.32 \text{ Hec}$$

Continuation

Sch. XLV—Form No. 134

10

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
	06	30	3.75	0.75	$0.6 \times 30 \times 3.75 \times 0.75 = 50.62 \text{ m}^3$
					1
					Total - $126.65 \text{ m}^3$

Deed  
18/12/2023  
JE.

Material statement

1) Stone - 459.80 $\text{m}^3$
2) Course sand - 131.22 $\text{m}^3$
3) Stone revering - 90.37 $\text{m}^3$

Deed  
18/12/23  
JE.

Abstract of cost

1/1 setting out .... of C/I only

vide TMI P-(6)

$$0.6 \text{ Hect} @ 2405.06/\text{Hect} - 14430/-$$

2/2 clearing & grubbing .... of C/I

at vides TMI P-(6)

$$0.82 \text{ Hect} @ 53879.81/\text{Hect} - 17242/-$$

3/5 Construction of subgrade .... of C/I

at vides TMI P-(6)

$$(a) 369.58 \text{ m}^3 @ 190.42/\text{m}^3 - 70375/-$$

$$(b) 1478.34 \text{ m}^3 @ 154.10/\text{m}^3 - 227945/-$$

4/7,12 Construction of G.R.A.gri. ....

of C/I at vides TMI P-(6), (9)

$$106.21 + 364.50 = 470.21 \text{ m}^3$$

Continuation

## Sch. XLV—Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
					$471.21 \text{ m}^3 @ 2817.78 \text{ m}^3 - 1327766/-$

5/8/13 Providing, laying WDM G.F.L

..... of E.I. oxyide TMIS P-(6)(9)

$$134.99 \text{ m}^3 + 128.35 = 261.54 \text{ m}^3$$

$$261.54 \text{ m}^3 @ 3587.24 \text{ m}^3 - 925130/-$$

6/14 Construction of four reinforced PCC

..... of E.I. oxyide TMIS P-(6)

$$270.0 \text{ m}^3 @ 6940.53 \text{ m}^3 - 1873943/-$$

7/3 Box cutting in C.C portion .....

of E.I. oxyide TMIS P-(6)

$$43.75 \text{ m}^3 @ 75.61 \text{ m}^3 - 3308/-$$

$$4460139/-$$

$$\text{Add } 13\% \text{ G.S.T. + L.C.E.} + 579819/-$$

$$(\text{Add } 5\% \text{ L.C.E.}) + 67741/-$$

$$5107699/-$$

$$11.5\% \text{ below as } (-) 590450/-$$

$$\text{per agreement} \quad 4517249/-$$

$$\text{Previous Payment } (-) 3017436/-$$

$$1499813/-$$

cheq

18/12/23

JG